



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1945 (श10)
(सं० पटना 277) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2024

सं० पर्य०यो०रा०-13/2024-652
पर्यटन विभाग

संकल्प
15 मार्च 2024

बिहार में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ देश एवं विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु/पर्यटकों का आगमन होता है तथा निरंतर श्रद्धालुओं/पर्यटकों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। आने वाले श्रद्धालुओं/पर्यटकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा कई नये-नये पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं व्यापार की संभावनाएं भी सृजित होगी।

पुनौराधाम माँ जानकी की जन्म भूमि है। वर्तमान में रामायण परिपथ के अन्तर्गत अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का निश्चित रूप से माँ जानकी की जन्म भूमि की दर्शन हेतु पुनौराधाम आगमन होता है। अयोध्या से पुनौराधाम जोड़ने हेतु उच्च गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय राज्यमार्ग का भी निर्माण हो रहा है। रामायण परिपथ के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कें एवं आवागमन की सुविधा बेहतर होने के चलते पुनौराधाम में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का अत्यधिक प्रवाह होगा। इनके सुविधा हेतु कई पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है। इस कार्य के निमित्त पुनौराधाम के आस-पास उपयुक्त मात्रा में भूमि की आवश्यकता होगी।

पुनौराधाम मंदिर के आस-पास में नये पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु रकवा 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के दिनांक 15.03.2024 को सम्पन्न बैठक में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किया गया है।

भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित भूमि के संबंध में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा सर्वे कराकर इस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। तदनुसार प्राप्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाई करते हुए भूमि अधिग्रहण जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के माध्यम से किया जायेगा।

प्रस्तावित रकवा 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण पर होने वाले व्यय का वहन पर्यटन विभाग के राज्य योजना स्कीम अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्य शीर्ष- 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष- 01- पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष- 101- पर्यटक केन्द्र, उप शीर्ष- 0104- पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड- 46-5452011010104, विषय शीर्ष- 5302-भू-अर्जन मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 277-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>